

## Child Test-2 (LA-7) सेट B

बच्चे का नाम \_\_\_\_\_ PCODE/Roll no

सर्वे की तारीख:

I. पढ़ कर समझना: वाक्य और चित्रों को मिलाईये

बच्चे के लिए निर्देश: आप के पास 20 मिनट हैं बाकी टेस्ट को पूरा करने के लिए। आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप समय से पहले पूरा कर लेते हैं, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप प्रश्नकर्ता को बता दें।

प्र. 1 वाक्य को सही चित्र के साथ मिलाईये

कुत्ता सो रहा है

क



ख



प्र. 2 वाक्य को सही चित्र के साथ मिलाईये

टेबल टूटी हुई है

क



ख



प्र. 3 वाक्य को सही चित्र के साथ मिलाईये

अध्यापिका बच्चों को किताबें दे रही है

क



ख



## Child Test-2 (LA-7) सेट C

III. खाली स्थान भरें: वाक्यों को पूरा कीजिए

बच्चों के लिए निर्देश: जो शब्द वाक्य को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करता है उसके ऊपर गोला लगाएं

उदहारण के रूप में -

\_\_\_\_\_ खाने में बहुत स्वादिष्ट है

क) केला	ख) ब्रश	ग) बोतल
---------	---------	---------

निम्नलिखित को पूरा करें:

1. जिस \_\_\_\_\_ में प्रभावती रहती हैं, वह बहुत बड़ा है।

क) घर	ख) कुत्ता	ग) स्कूल
-------	-----------	----------

2. स्कूल की \_\_\_\_\_ हर दिन बहुत जोर से बजती है।

क) घंटी	ख) कक्षा	ग) दोपहर का भोजन
---------	----------	------------------

3. संतोष एक \_\_\_\_\_ पढ़ रहा है।

क) भोजन	ख) किताब	ग) गाड़ी
---------	----------	----------

4. दिन में \_\_\_\_\_ चमकता है।

क) चाँद	ख) घर	ग) सूरज
---------	-------	---------

5. इस लड़के को क्रिकेट \_\_\_\_\_ बहुत पसंद है।

क) खेलना	ख) गाना	ग) पीना
----------	---------	---------

## Child Test-2 (LA-7) सेट D

IV. पढ़ कर समझना: अनुच्छेद को पढ़े व समझें और प्रश्नों के उत्तर दें।

### शांति और उसकी भूरी बिल्ली

मेरा नाम शांति है और मैं आठ साल की हूँ। सुनील मेरा छोटा भाई है और वह चार साल का है। हमे अपनी बिल्ली के साथ खेलना पसंद है। हमारी बिल्ली भूरी और मोटी है और उसे दरवाज़े के पीछे छुपना अच्छा लगता है।

एक दिन हमारी बिल्ली खो गयी।

मैंने कहा, “मैं हैरान हूँ कि बिल्ली कहाँ चली गयी?”

हमने सोचा कि वह बस छुपन छुपायी खेल रही है, लेकिन हम उसे उसकी पसंदीदा जगहों पर भी नहीं ढूँढ पाए। इसलिए हमने बिल्ली के लिए पूरा घर छान मारा।

आखिरकार, हमे वह पलंग के नीचे मिली, पर वह अकेली नहीं थी!

सुनील ने हैरानी से कहा, “उसने तीन बच्चों को जन्म दिया है, दो भूरे और एक सफ़ेद”।

सही विकल्प पर निशान लगा कर जवाब दें

1. कहानी कौन सुना रहा है?

क. सुनील \_\_\_\_\_

ख. बिल्ली \_\_\_\_\_

ग. शांति \_\_\_\_\_

2. शांति और सुनील को क्या करना पसंद है?

क. उन्हें फर्नीचर के पीछे छुपना पसंद है \_\_\_\_\_

ख. उन्हें छुपन छुपायी खेलना पसंद है \_\_\_\_\_

ग. उन्हें अपनी बिल्ली के साथ खेलना पसंद है \_\_\_\_\_

3. सुनील और शांति ने क्यों कहा कि बिल्ली अकेली नहीं थी?

क. क्योंकि उसने तीन बच्चों को जन्म दिया था \_\_\_\_\_

ख. क्योंकि वह कुत्ते के साथ खेल रही थी \_\_\_\_\_

ग. क्योंकि वह उनके माता पिता के साथ थी \_\_\_\_\_

4. शांति और सुनील को बिल्ली कहाँ मिली?

क. कालीन के नीचे \_\_\_\_\_

ख. टेबल के नीचे \_\_\_\_\_

ग. पलंग के नीचे \_\_\_\_\_

## Child Test-2 (LA-7) सेट E

मधुमक्खियों से जुड़ी हुई एक किताब से आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें।

मधुमक्खियाँ जीवित रहने के लिए शहद बनाती हैं। यह उनका एक मात्र सबसे ज़रूरी भोजन है। यदि मधुमक्खी के एक छत्ते में 60,000 मधुमक्खियाँ हैं तो उनमें से लगभग एक तिहाई पराग इकट्ठा करने में शामिल होती हैं जिसे कि बाद में घर की मधुमक्खियों द्वारा शहद में बदला जाता है। मधुमक्खियों की एक छोटी सी संख्या घूम घूम कर खोज करने वालों की होती है। वे पराग का स्रोत ढूँढती हैं, और फिर बाकी मधुमक्खियों को उस जगह के बारे में बताने के लिए छत्ते में वापस लौटती हैं।

पराग को तलाशने वाली मधुमक्खियाँ बाकी मधुमक्खियों को पराग के स्रोत के बारे में नृत्य करके बताती हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि मधुमक्खियों को किस दिशा में और कितनी दूर उड़ने की आवश्यकता है। जब मधुमक्खियाँ पराग ले कर छत्ते में लौटती हैं, तब उसे वे घर की मधुमक्खियों को दे देती हैं (काम करने वाली मधुमक्खियाँ जो छत्ते में रह कर काम करती हैं)। घर की मधुमक्खियाँ इस पराग को ले कर घूमती हैं जिससे कि इसे छत्ते की गरम शुष्क हवा लग सके। जब पराग को पहली बार इकट्ठा किया जाता है तो इसके अन्दर शक्कर और खनिज लगभग 80% पानी के साथ मिले हुए होते हैं। लगभग दस से बीस मिनट बाद, जब काफी हद तक पानी भाप बन चुका होता है तब घर की मधुमक्खियाँ उस पराग को छत्ते के खाने में रख देती हैं जहाँ पर वाष्पीकरण चलता रहता है। तीन दिन के बाद, खानों में रखे शहद में मात्र 20% पानी रह जाता है। इस स्तर पर मधुमक्खियाँ छत्ते के सभी खानों को एक खास तरह के मोम से ढक कर बंद कर देती हैं जो उन्होंने खुद ही बनाया होता है।

एक बार में एक छत्ते की मधुमक्खियाँ आमतौर पर एक ही तरह की बौरों से और एक ही जगह से पराग इकट्ठा करती हैं। फलों के पेड़, फूलों के पेड़ और तिपतिया घास पराग के मुख्य स्रोतों में से कुछ एक हैं।

1. दिए गए अनुच्छेद के अनुसार मधुमक्खियों का सबसे ज़रूरी भोजन क्या है?

- क) फल
- ख) शहद
- ग) मधुमक्खियों का बनाया हुआ मोम
- घ) तिपतिया घास

2. घूमते हुए खोज करने वाली मधुमक्खियों का मुख्य काम क्या है?

- क) फूलों का रस से शहद बनाना
- ख) रस का स्रोत पता करना और बाकी मधुमक्खियों को उसके बारे में बताना
- ग) जिसमें मधुमक्खियाँ रह सकें ऐसे छत्ता बनाना
- घ) छत्ते को कीड़े व जानवरों से बचा कर रखना

3. अनुच्छेद के अनुसार मधुमक्खियों का कितना भाग रस इकट्ठा करने के काम में शामिल होता है?
- क) छत्ते में रह रही सभी मधुमक्खियों का आधा भाग
  - ख) छत्ते में रह रही सभी मधुमक्खियों का दो तिहाई भाग
  - ग) छत्ते में रह रही सभी मधुमक्खियों का एक चौथाई भाग
  - घ) छत्ते में रह रही सभी मधुमक्खियों का एक तिहाई भाग
4. खोज करने वाली मधुमक्खियाँ बाकी मधुमक्खियों को कैसे बताती हैं कि रस कहाँ है?
- क) स्रोत की तरफ उड़ कर
  - ख) नृत्य करके
  - ग) छत्ते का एक खाना बना कर
  - घ) खास आवाजें निकाल कर
5. रस और शहद के बीच में मुख्य अंतर क्या है?
- क) उस पदार्थ में पानी का हिस्सा
  - ख) उस पदार्थ में शक्कर और खनिज का अनुपात
  - ग) उस पौधे का प्रकार जिससे वह पदार्थ इकट्ठा किया जाता है
  - घ) उस मधुमक्खी का प्रकार जो उस पदार्थ को तैयार करती है
-